

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2002/माघ 17, 1923

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2002/MAGHA 17, 1923

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 86(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ग(1) में, क्र. सं. 9 के पश्चात् के निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्:—

“10. पात्रे रक्त समूहन सीरा (इन-विट्रो ब्लड ग्रुपिंग सीरा)

11. एचआईवी, एचबीएसएजी और एचसीवी के लिए पात्रे नैदानिक युक्तियां।”

[फा. सं. एक्स-11014/13/2001-डीएमएस एण्ड पीएफए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 909(अ) तारीख 20-12-2001 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2002

G.S.R. 86(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to ~~make~~, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said sections for the ~~information~~ of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this ~~notification~~ is published are made available to the public;

Objections or suggestions ~~if any~~, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said rules before the expiry of the period as specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be ~~called~~ the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2002.
(2) They shall come into ~~force~~ on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule C(1), after serial number 9, the following shall be inserted, namely :—
“10. In-vitro Blood Grouping ~~Sera~~
11. In-vitro Diagnostic Devices for HIV, HBsAg and HCV.”

[F. No. X-11014/13/2001-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Official Gazette vide notification No. F. 28-10/45-H(1) dated December 21, 1945 and ~~last~~ amended vide G.S.R. 909(E) dated 20-12-2001.